



Moneywise. Be wise.

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

Member: NSE • BSE • MSE • NCDEX • ICEX • MCX

Clearing & Trading Member : Cash, F&O, Currency, Debt & Commodity

SEBI Regn. No. : INZ 000199436 • Research Analyst No. : INH100001849 • Investment Adviser No. : INA100012491

Regd. Office : 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Ph : +91-11-30111000, 40753333 Fax : +91-11-25754365 • CIN No. : L74899DL1994PLC063609

E-mail : smc@smcindiaonline.com Website : www.smcindiaonline.com

Date: 01.06.2023

Listing Operations BSE Limited, P J Towers, Dalal Street, Mumbai-400001, India	Listing Department National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051
Scrip Code: 543263	Symbol: SMCGLOBAL

Subject: Public Notice for conducting the 29th Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OVAM).

In pursuance of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper advertisements of the Public Notice published on 1st June, 2023 for conducting the 29th Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 30th June, 2023 through VC/OVAM in compliance with MCA circulars. The advertisement has been made in the following newspapers:

- Financial express in English
- Jan Satta in Hindi

This disclosure shall also be available on Company's website <https://smcindiaonline.com> in the Investors Corner.

The extract of the newspaper advertisement is annexed herewith for reference.

This is for your information and record.

For SMC Global Securities Limited

SUMAN Digitally signed
by SUMAN
KUMAR
KUMAR Date: 2023.06.01
15:39:45 +05'30'

Suman Kumar

E.V.P. (Corporate Affairs) Company Secretary & General Counsel

Membership No. F5824

MUMBAI OFFICE : A Wing, 401/402, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Off Western Express Highway, Jay Coach Signal, Goregaon East
Mumbai-400063 Ph : +91-22-67341600, 66481818 Fax : +91-22-67341697 E-mail : smcmumbai@smcindiaonline.com

KOLKATA OFFICE: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No. 4, 5th Floor, Kolkata - 700001 Ph : +91-33-66127000 Fax : +91-33-66127004
E-mail : smckolkata@smcindiaonline.com



RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.
 CIN: L16003WB2006PLC110039
 Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R. No-10 Kolkata-700001,
 Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;
 Email id :secretarial@rdbindia.com; Website: www.rdbindia.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
 (Rs. in Lakhs)

Particulars	CONSOLIDATED		
	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)
Total income from operations (net)	7252.40	14195.15	3860.09
Net Profit before Tax and exceptional items	920.78	2028.48	122.89
Net Profit before Tax after exceptional items	920.78	2028.48	122.89
Net Profit/Loss after Tax	776.88	1687.82	13.30
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	775.43	1708.01	40.99
Paid-up Equity Share Capital Face Value Rs. 10/- Per Share	1728.34	1728.34	1728.34
Reserves (As shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	15125.44 (as on 31/03/23)	15125.44 (as on 31/03/23)	13527.65 (as on 31/03/22)
Basic and Diluted Earning Per Share for the period	4.49	9.77	0.08

Notes:
 1. (a) The above results were reviewed by the Audit Committee on 30th May, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 30th May, 2023.
 (b) Key Standalone Financial Information

Particulars	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)
	Total Income	5263.20	11261.81
Net Profit/loss before Tax	67.15	540.37	78.17
Net Profit/Loss after Tax	61.11	426.70	8.24

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange(s) and on the company's website (www.rdbindia.com).
 FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
 Sd/-
Rajeev Kumar
 Chairman & Whole-time Director
 DIN: 07003686

Banks must know risks of their biz models: Jain

PIYUSH SHUKLA
 Mumbai, May 31

RECENT INCIDENTS of international bank failures have gotten into a trouble for operating a fundamentally flawed business model, hence they should be aware of potential downside risks associated with their approach, RBI deputy governor M K Jain said on Wednesday.

His remarks came two days after RBI governor Shaktikanta Das shared similar views during a meeting with top management of lenders, saying the central bank has come across instances wherein some banks have attempted to conceal the true status of their stressed loans through the use of "smart" accounting processes.

While interacting with boards of public and private sector banks, Jain said, "Sometimes banks follow inherently risky strategies with the confidence that their bank has mitigating controls. However, their assumptions may not hold true either due to internal control failure or due to exogenous factors," Jain added.

The deputy governor said a bank's board plays a vital role in independently assessing their business model and its attendant risks, and it is important for banks to carefully assess their own unique circumstances and capabilities, conduct thorough analysis and tailor their strategies accordingly.

While it can be valuable to learn from the experiences of other banks, adopting their strategies without considering the specific context and requirements may lead to unfavourable outcomes, he said.

Due to rapid technological changes globally, banks will have to transform like technology

Sometimes banks follow risky strategies with the confidence that their bank has mitigating controls. Their assumptions may not hold true either due to internal control failure or due to exogenous factors



M K JAIN, RBI DEPUTY GOVERNOR

companies, continuously innovate and invest in system upgrade, he said citing risks of cyber-attacks, and data breaches.

Further, there is an operational risk arising for banks due to factors such as high attrition, lack of succession planning, skilling of staff and outsourcing services, he said.

"Operational risks stemming from ethical issues can also have significant repercussions for banks, including reputation damage, legal and regulatory consequences, erosion of customer trust and adverse financial impacts," he added.

Jain said banks perform the function of liquidity and maturity transformation which

Non-food credit rises to over ₹138 trillion

FE BUREAU
 Mumbai, May 31

SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' non-food credit grew 1.6% year-on-year (y-o-y) to ₹138.36 trillion in April, sectoral credit data released by the Reserve Bank of India showed Wednesday.

It is higher than 15.4% on-year growth registered in March. Credit to agriculture and allied activities rose 16.7% y-o-y to ₹17.25 trillion while credit to industry segment rose 7% y-o-y to ₹33.69 trillion.

Banks' credit to services sector grew at the fastest pace, at 21.6% y-o-y to ₹36.64 trillion. Among the services sector, credit to non-banking finance companies grew sharply, at 29.2% y-o-y to ₹13.45 trillion.

The overall non-food credit growth is higher than analyst estimates. According to a recent SEI Research report, banks are likely to witness a 1.2%-1.3% y-o-y growth in their overall advances in FY24, compared with 1.5%-1.6% credit growth in FY23. While credit off-take was robust in April, the weighted average lending rate (WALR) on fresh rupee loans of banks decreased by 2.3 basis points (bps) from 9.32% in March to 9.09% in April.

Further, the WALR on outstanding rupee loans of banks increased by 4 bps from 9.72% in March to 9.76% in April, while one-year median marginal cost of fund-based lending rate (MCLR) remained unchanged at 8.60%, the Reserve Bank of India data showed.



Lending to industry decelerates

GROWTH OF BANK credit to industry decelerated to 7% in April as compared with the corresponding month in the previous year, according to RBI data.

Credit to large industry rose by 5.3% as compared with 1.3% a year ago. Credit growth of medium industries was 19.1% as against 53.7% last year. Credit to micro and small industries registered a growth of 9.7% in April (29.8% a year ago).

On liabilities side, the weighted average domestic term deposit rate (WADTD) on fresh rupee term deposits of banks decreased by 12 bps from 6.48% in March to 6.36% in April. The WADTD on outstanding rupee term deposits of banks increased by 12 bps from 6.16% in March to 6.28% in April, the data showed.

—PTI

PARTAP INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office : VII Beopror, G.T. Road, Near Shambhu Barrier, Distt. Patiala, Punjab 140417 INDIA.
 CIN : L15142PB1988PLC008614, Email : partapising2017@gmail.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023
 (INR in Lacs except per share data)

SL. NO.	PARTICULARS	STANDALONE					
		For the Quarter Ended			For the Year Ended		
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
1	Total Income from operations	7713.24	7332.96	13008.88	38809.94	42714.25	
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	(1,821.86)	1,233.88	1,156.46	2,782.63	4,433.07	
3	Total Comprehensive Income for the period	(1,647.77)	973.88	61.28	2,176.71	3,337.89	
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02	
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation						
	(1) Basic	(51.46)	30.41	1.91	67.97	104.23	
	(2) Diluted	(51.46)	30.41	1.91	67.97	104.23	

Note:
 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www.mscl.com and on the Company's website at www.partapdenim.com

Date : 30.05.2023
 Place : Kolhapur

For Partap Industries Limited
 Sd/-
Sudarshan Paul Bansal
 Chairman & Managing Director

Abrdn sells entire 1.66% stake in HDFC Life

Kolkata, May 31

ABRDN (MAURITIUS HOLDINGS) has sold its entire 1.66% stake in HDFC Life Insurance via block deals on Wednesday. Abrdn was one of the promoters of HDFC Life.

According to a stock exchange filing, Abrdn (Mauritius Holdings) 2006 Limited undertaken a sale of 3,56,94,105 equity shares (representing approximately 1.66% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company) on May 31 to various investors through the screen-based trading system of the stock exchanges, at an

average price of ₹570.60 per equity share (including brokerage and commission).

"The Sale is subject to the settlement process prescribed for the stock exchanges under the extant regulation and is expected to be completed on Thursday, June 1, 2023.

"Pursuant to the settlement of the sale, Abrdn will hold nil equity shares in the company," the filing added.

On Wednesday, the life insurer's scrip ended the day 1.04% higher at 591.55 apiece. At the end of the March quarter last fiscal, HDFC Life's stake in the insurance company stood at 48.65%.

ment of the sale, Abrdn will hold nil equity shares in the company," the filing added.

On Wednesday, the life insurer's scrip ended the day 1.04% higher at 591.55 apiece. At the end of the March quarter last fiscal, HDFC Life's stake in the insurance company stood at 48.65%.

FE BUREAU

BALASORE ALLOYS LIMITED
 CIN No. L27101OR1984PLC001354
 Registered Office : Balgopalpur 756020, Distt. Balasore, Odisha
 Tel : +91-6782-27581-85, Fax : +91-6782-275724, Website : www.balasurealloys.com, e-mail : mail@balasurealloys.com

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter/Half Year ended 30th September, 2022 (Rs. In Lakhs)

Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1 Total Income from Operations	618.85	5,912.33	7,396.13	5,293.48	4,627.39	10,211.55	618.85	5,912.33	7,396.13	5,293.48	4,627.39	10,211.55
2 Net Profit before Exceptional Item and Tax	(4,198.48)	(4,140.08)	(2,328.75)	58.40	(497.12)	(6,613.21)	(4,201.51)	(4,146.14)	(2,334.33)	55.37	(499.91)	(6,621.71)
3 Net Profit after Exceptional Item and before tax	(4,198.48)	(4,140.08)	(2,328.75)	58.40	(497.12)	(6,613.21)	(4,201.51)	(4,146.14)	(2,334.33)	55.37	(499.91)	(6,621.71)
4 Net Profit after tax	(6,138.20)	(6,131.54)	(1,763.28)	6.66	(375.98)	(5,809.76)	(6,141.23)	(6,137.60)	(1,765.45)	3.63	(378.09)	(5,818.27)
5 Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	52.23	104.47	-	52.23	-	252.34	52.23	104.47	-	52.23	-	252.34
6 Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/- per share)	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27
7 Other Equity						66,456.74						66,456.74
8 Earnings Per Share for the period (Face value of ₹ 5/- per share)												
	- Basic & diluted	(6.58)	(6.57)	(1.89)	0.01	(0.40)	(6.23)	(6.58)	(6.58)	(1.89)	0.01	(6.23)

Note:
 1 The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May, 2023 and have been reviewed by the statutory auditors.
 2 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.balasurealloys.com).
 3 Previous period figures have been re-arranged /re-grouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.

For Balasure Alloys Limited
 Sd/-
Akula Nagendra Kumar
 Managing Director
 DIN:08462253

Date : 30th May, 2023
 Place : Kolkata

DBS Bank launches premium credit card

Mumbai, May 31

DBS BANK INDIA has launched an invite-only super premium credit card, which provides a host of luxury and lifestyle rewards, the lender said in a press release on Wednesday. The DBS Vantage card will be initially offered to select invitee list. The metal card comes with highly sought after privileges, including

travel, fine dining and complimentary sessions at prestigious golf courses. Cardholders will receive benefits like luxury hotel memberships through either Taj Epicure, ITC Culinaire or Club Marriott.

The card offers low fee on international transactions and unlimited airport lounge access with a 24-hour visa concierge service.

FE BUREAU

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circular dated 05th May, 2020 read with other circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 recent circular dated December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 collectively referred as "MCA Circulars") and pursuant to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is conducting its 29th Annual General Meeting (AGM) on Friday, 30th day of June, 2023 at 12:00 Noon through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) in accordance with the provisions of the aforesaid circulars and without the presence of Members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the registered office of the Company. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of AGM.

By virtue of the exemption granted by aforementioned MCA circulars, the Company is conducting its AGM through VC and servicing the documents to all the shareholders through email. Accordingly, the Company requests all the shareholders who have not yet registered their email addresses or has not updated their email addresses with the Company to register the same at the earliest. The process of registration of email address is provided below:

For the Members who have not registered their e-mail address with the Company are requested to submit their request with their valid e-mail address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd at delhi@linkintime.co.in or can submit their request through post at **Noble Heights, 1st Floor, Plot No. 2-C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi - 110058.**

On the other hand, for the Members holding shares in demat form and who intends to register a new email address/update their existing e-mail addresses are requested to provide the details to their respective Depository Participant(s).

Please note that shareholders who do not register their email address shall not be able to receive the notice of AGM and other related documents. The details w.r.t. voting process and user ID and password for voting at the e-voting platform shall be provided to the shareholders through email. In this regard, the Members who have not registered their e-mail addresses with the Company can still cast their vote through remote e-voting after obtaining the login ID and password for remote e-voting by applying to Link Intime India Pvt. Ltd. at enid@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-4918 6000. The e-voting process is prescribed in detail in the Notice of the AGM.

Members may note that the Notice of AGM will be made available on the Company's website www.smcindiaonline.com and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt. Ltd at https://instavote.linkintime.co.in and shall also be disseminated on the stock exchanges where the securities of the Company are listed.

Members holding shares in electronic form may take note that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Company for payment of dividend. In this regard, the Members who fail to provide their bank account details, the Company shall provide with dividend Cheque/Demand Draft to such shareholders. The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31st March, 2023 is 16th June, 2023.

In case shareholders/ members have any queries, they may send an email to instamem@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

For **SMC Global Securities Limited**
 Sd/-
(Suman Kumar)
 E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary & General Counsel
 Date : 1st June, 2023
 Place : New Delhi
 Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLC063609)
 Registered Office : 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005
 Ph : +91-11-30111000, 40753333 | Fax : +91-11-25754365
 E-mail : smc@smcindiaonline.com | Website : www.smcindiaonline.com

smc
 Moneywise. Be wise.
 CIN: L74899DL1994PLC063609

bharti
BHARTI TELECOM LIMITED
 CIN: U32039HR1985PLC032091

Regd. Office: Airtel Centre, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase - IV, Gurgaon, Haryana - 122 001 Tel.: +91-124-4222222, Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.bhartitelecom.in

Statement of standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023
 [Regulation 52(8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]

(All amounts are in million of Indian Rupees unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		For the quarter ended		For the year ended		For the quarter ended		For the year ended	
		March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
1.	Total income from operations	5	206	6,097	1,105	2,849	315,298	1,400,905	1,171,204
2.	Net profit/ (loss) for the quarter/year (before Tax, exceptional and/or extraordinary items #)	(3,298)	(243)	(1,832)	(533)	(6,010)	41,063	164,467	107,311
3.	Net profit/ (loss) for the quarter/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items #)	(3,298)	(243)	(1,832)	(533)	-	50,125	157,769	124,297
4.	Net profit/ (loss) for the quarter/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items #)	(3,013)	(266)	(3,045)	(619)	-	36,884	113,823	82,432
5.	Total comprehensive income/ (loss) for the quarter/year [comprising profit / (loss) for the quarter/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(3,013)	(266)	(3,045)	(619)	(5,388)	35,565	92,301	84,988
6.	Paid up equity share capital (face value of Rs.10/- each)	25,823	25,823	25,823	25,823	-	25,823	25,823	25,823
7.	Other equity / Reserves (excluding Revaluation Reserve)	20,510	23,555	20,510	23,555	38,461	46,704	38,461	46,704
8.	Securities Premium Account	36,267	36,267	36,267	36,267	115,060	92,415	115,060	92,415
9.	Net worth	82,600	85,645	82,600	85,645	153,521	164,942	179,344	164,942
10.	Paid up debt capital / outstanding debt	162,351	20,222	162,351	20,222	408,381	1,349,248	1,817,648	1,349,248
11.	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Debt equity ratio	1.96	0.23	1.96	0.23	1.92	1.41	1.92	1.41
13.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-								
	a) Basic:	(1.17)	(0.10)	(1.18)	(0.24)	3.32	2.66	10.38	5.49
	b) Diluted:	(1.17)	(0.10)	(1.18)	(0.24)	3.32	2.66	10.38	5.49
14.	Capital redemption reserve	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
15.	Debt service Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil	207	207	207	207
16.	Debt service coverage ratio	-0.14%	1.56%	48.53%	7.66%	1.28%	0.59%	1.05%	0.43%
17.	Interest service coverage ratio	-0.14%	45.45%	76.80%	66.98%	1.85%	2.22%	1.79%	1.74%

- Exception and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with IndAS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2023 Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended & year ended audited financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.bhartitelecom.in.
 b) For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on the URL www.nseindia.com.
 c) The impact of net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

Place : New Delhi
 Date : May 30, 2023

For Bharti Telecom Limited
 Sd/-
Devendra Khanna
 Managing Director
 DIN: 01996768

प्रवृत्त ए सार्वजनिक घोषणा [भारतीय विवादा और शोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत] मिसर्स ज्वेलर्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के व्यापार्य संबंधित विवरण

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 सीआरपीसी देखिए) मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त अजीत कुमार साह पुत्र वीर बहादुर साह पता: म.नं. 234, नेहरू नगर, प्रेम नगर, दिल्ली एवं शिवम कुमार पुत्र मनोज कुमार पता: म.नं. भी-83, ज़िम वाली गली, निहाल विहार, दिल्ली

पहचान की अपील सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नाम: सोनू परिवार व पता: नामालूम, उम्र: लगभग 40 वर्ष, जो दिनांक 09.05.2023 को करीब 8:30 बजे सुबह डीडीए मार्केट चौखण्डी, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया।

COURT NOTICE (In Complaint -138 Negotiable Instrument Act) The Court of Mr. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana Kotak Mahindra Bank Vs. Pramod Kumar

आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मकान सं. 304, आगार पुर, लखनऊ-284403 उत्तर प्रदेश वेबसाइट: www.anandprojects.com, दूरभाष 0120 2511589, सीआईएन: L40109U1936PLC048200

DASTI IN THE COURT OF SH. BHUPESH KUMAR, DISTRICT JUDGE (COMM COURT-02) DWARKA COURTS, NEW DELHI NOTICE FOR PUBLICATION (ORDER 5 Rule 20 of the CPC.) CS (COMM) NO. 293/2022 CANARA BANK VS. SMT. PAYAL KUMAR

उम्मीद हाजिसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय, फ्लैट 609-615, एबी मॉडल, टॉवर-ए, ईएमएसआर हिल्स टाउन, गोलकुटा एक्सप्रेसवे, सेक्टर- 61, गुजरात - 122002 (हरियाणा), सीआईएन: U65221NR2016PTC059784

अभियुक्त व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए) मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र जस कर्म सिंह निवासी ए-177, गली नं. 7, सोम बाजार रोड, मधु विहार, उत्तर नगर, नई दिल्ली

Lemon Tree Hotels Limited (CIN:L74899DL1992PLC09022) Regd. Off.: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District New Delhi -110037 | Tel.: +91-11-4605 0101

Table with 7 columns: क्र. सं., विवरण, एकल (समाप्त 3 माह, समाप्त तदनुसूची 3 माह), समेकित (समाप्त 3 माह, समाप्त तदनुसूची 3 माह), समाप्त चालू वर्ष (31.03.2023), समाप्त चालू वर्ष (31.03.2023)

AUTO PINS (INDIA) LIMITED CIN: L34300DL1975PLC007994 Regd. Off.: Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends Colony, New Delhi, South Delhi-110025

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82Cr.PC देखिये मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त नितेश निलेंदु निवासी मकान नं. 64ए, तीसरी मंजिल, गढ़वाली मोहल्ला, लक्ष्मी नगर, गली नंबर 3, आरोही ब्यूटी पार्कर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

गुमशुदा/अपहृत की तलाश सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम दुर्गेश, पुत्र, केसर, पता सोनी-53, टी-हर्ट, सीबीआई कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (₹ In Lakhs, except per share data)

सूचना एलएडएल सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य परिपत्रक दिनांक 08 अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020 नवीनगण परिपत्रक दिनांक 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022 एवं 28 दिसंबर 2022, समुचित रूप में (एनसीए परिपत्रक) के रूप में संदर्भित, के साथ पठित एमसीए परिपत्रक दिनांक 05 मई 2020

सोफिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सीआईएन: L52110DL1985PLC02005 पंजी. कार्यालय 4697/201, पाठक बाबल बागे, हीरा काजी, दिल्ली-110006, भारत